

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 जुलाई 2012—आषाढ़ 22, शक 1934

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर (जिला शहरी विकास अभिकरण), बैतूल (मध्यप्रदेश)

बैतूल, दिनांक 3 जुलाई 2012

क्र. 822-2012-एसजेएस-1-स्था.—बैतूल, दिनांक 3 जुलाई 2012 से श्री सुभाष राठौर, नगरपरिषद्, बैतूलबाजार के द्वारा उपाध्यक्ष, नगरपरिषद्, बैतूलबाजार के पद से दिनांक 1 जून 2012 को दिये गये त्याग-पत्र को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 40 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, श्री सुभाष राठौर, उपाध्यक्ष, नगरपरिषद्, बैतूलबाजार के द्वारा दिये गये त्याग-पत्र को धारा 40(3) के, में दिये गये प्रावधानों के तहत प्रस्तुत दिनांक 1 जून 2012 से त्याग-पत्र स्वीकार किया जाता है एवं उपाध्यक्ष, नगरपरिषद्, बैतूलबाजार का पद रिक्त माना जाता है.

बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर.